



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 कार्तिक 1939 (श0)
(सं0 पटना 1025) पटना, शुक्रवार, 3 नवम्बर 2017

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

1 नवम्बर 2017

सं० 3/एम0-54/2015सा0प्र0-13706—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही, संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत समाज कल्याण विभाग एवं भवन निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित पद को संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र० सं०	विभाग का नाम	विभागीय संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पद।
1.	समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।	(i) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।
2.	भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(i) सहायक अभियंता (विद्युत); (ii) सहायक अभियंता (असैनिक)।

3. उपरोक्त पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इस पद पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,
एम0 एस0 अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1025-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>